

उत्तराखण्ड शासन

पशुपालन अनुभाग-1

संख्या 695 /XV-1/18/2(6)/2010

देहरादून : दिनांक 12 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-485/XV-1/18/2(6)/2010 दिनांक 29 जून, 2018 के क्रम में की गयी पदोन्नति एवं विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर डा०हरजीत सिंह तथा डा०दीपा तोमक्याल, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 की पदोन्नति पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-01 वेतनमान ₹15600-39100 ग्रेड पे० 6600 (पुनरीक्षित वेतनमान ₹ 56100-177500 लेवल-11) पर करते हुए समग्र रूप से निम्न पशुचिकित्साधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित संस्था में पदस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	डा०दीपमणी गुप्ता	पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक, ऋषिकेश	पशुचिकित्सालय अगस्तमुनि जनपद रुद्रप्रयाग	
2	डा०राजेश कुमार रंजन	जलागम परियोजना प्रतिनियुक्ति पर	पदस्थापना नहीं की जानी है।	
3	डा० कमल तिवारी	पशुचिकित्सालय रामेश्वरपुर, जनपद उधमसिंहनगर	पशुचिकित्सालय सदर, जनपद बागेश्वर	
4	डा० देवकी पिल्लवाल	पशुचिकित्सालय कमलपुर जनपद पौड़ी	पशुचिकित्सालय कोट जनपद पौड़ी गढ़वाल।	धारा-13(3) से आच्छादित
5	डा० पूजा कुकरेती	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून	भेड़ प्रक्षेत्र पीपलकोटी, जनपद चमोली।	
6	डा० संजय सिंह बसेड़ा	पशुचिकित्सालय तेजम, जनपद पिथौरागढ़	पशुचिकित्सालय कनालीछीना जनपद पिथौरागढ़	धारा-13(3) से आच्छादित
7	डा० असवाल मंजू	मण्डलीय लैब हवालबाग, अल्मोड़ा	पशुचिकित्सालय गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़	
8	डा० मनीष नेगी	पशुलोक प्रक्षेत्र, ऋषिकेश	पशुचिकित्सालय बीरोंखाल जनपद पौड़ी	
9	डा० राजेश कुमार शर्मा	यू०एल०डी०बी० ऋषिकेश	श्यामपुर पशुचिकित्सालय चमोली जनपद चमोली	
10	डा० संदीप कुमार	पशुचिकित्सालय जनपद नैनीताल	लालकुआं, भेड़ प्रक्षेत्र डुण्डा जनपद उत्तरकाशी	
11	डा० कमल पंत	पशुचिकित्सालय सुल्तानपुरपट्टी उधमसिंहनगर	उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी बागेश्वर	
12	डा० राम नयन मौर्य	पशुचिकित्सालय जनपद अल्मोड़ा	जौरासी पशुचिकित्सालय चौखुटिया जनपद अल्मोड़ा	
13	डा० दीपक मेहरा	पशुचिकित्सालय, जनपद हरिद्वार	झबरेड़ा पशुचिकित्सालय धौलछीना जनपद अल्मोड़ा	
14	डा० संतोष कुमार बुधानी	पशुचिकित्सालय जनपद नैनीताल	ऊचाँकोट पशुचिकित्सालय लमगढ़ा, जनपद अल्मोड़ा।	
15	डा० ओम प्रकाश	पशुचिकित्सालय, जनपद देहरादून	राजपुर पशुचिकित्सालय प्रतापनगर जनपद टिहरी	धारा-13(5) से आच्छादित होने के

				कारण पशुचिकित्सालय राजपुर, देहरादून में अग्रिम आदेशों तक सम्बद्ध
16	डा० दिनेश चन्द्र तिवारी	पशुचिकित्सालय कुंवरपुर जनपद नैनीताल	पशुचिकित्सालय पाटी, जनपद चम्पावत	
17	डा० राजीव कुमार	सूकर प्रक्षेत्र, काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर	उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अल्मोड़ा	पेर से द्विव्यांग धारा-3(ड) से आच्छादित होने के कारण सूकर प्रक्षेत्र काशीपुर पर अग्रिम आदेशों तक
18	डा० हरजीत सिंह	पशुचिकित्सालय मालधनचौड़ जनपद नैनीताल	पशुचिकित्सालय बेतलाघाट, जनपद, नैनीताल।	
19	डा० दीपा तोमक्याल	रोग निदान प्रयोगशाला रुद्रपुर जनपद उधमसिंहनगर	पशुचिकित्सालय जाखपुरन जनपद पिथौरागढ़	

2. सम्बन्धित अधिकारी आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनीत स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. उपरोक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्तकित अधिकारियों द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

आर० मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव

संख्या 695 (1)/XV-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढवाल/कुमायूं मण्डल।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।
8. सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1को अनुपालनार्थ।

आज्ञा से,
(वी०एस० पुन्डीर)
उप सचिव